



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 127 राँची, मंगलवार,

25 फरवरी, 2020 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

संख्या- 429/पूर्व0अनु.-1/झार-वि.स./2019(2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा दिनांक 23 जनवरी, 2001 की अपनी अधिसूचना सं० 429/झारखण्ड/2001(2), व समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा झारखण्ड सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यों के निष्पादन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
1	2
01-राजमहल	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजमहल 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, उधवा 4. अंचल अधिकारी, राजमहल
02-बोरियो (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोआरीजोर (गोड्डा) 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तालझारी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोरियो 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मण्डरो
03-बरहेट (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुन्दरपहाड़ी (गोड्डा) 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहेट 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतना 4. अंचल अधिकारी, बोआरीजोर (गोड्डा)
04-लिट्टीपाड़ा (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपीकान्दर (दुमका)
05-पाकुड़	1. अंचल अधिकारी, पाकुड़ 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहरवा (साहेबगंज) 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़
06-महेशपुर (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया 2. अंचल अधिकारी, महेशपुर 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर
07-शिकारीपाड़ा (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, काठीकुण्ड
08-नाला	1. अंचल अधिकारी, फतेहपुर 2. अंचल अधिकारी, नाला 3. अंचल अधिकारी, कुण्डहित
09-जामताड़ा	1. अंचल अधिकारी, नारायणपुर 2. अंचल अधिकारी, करमाटांड विद्यासागर 3. अंचल अधिकारी, जामताड़ा
10-दुमका (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुमका 2. अंचल अधिकारी, दुमका 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसलिया
11-जामा (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा 2. अंचल अधिकारी, जामा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
12-जरमुण्डी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जरमुण्डी
	2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारवां (देवघर)
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनारायठाड़ी (देवघर)
13-मधुपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मारगोमुंडा
	2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुपुर
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, करौं
	4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर
14-सारठ	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारठ
	2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालोजोरी
15-देवघर (अ०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर
	2. अंचल अधिकारी, देवघर
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर
16-पोड़ैयाहाट	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट
	2. अंचल अधिकारी, गोड्डा
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैयाहाट
17-गोड्डा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतराय
	2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पथरगामा
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा
18-महगामा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा
	2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, महागामा
19-कोडरमा	1. अंचल अधिकारी, सतगावाँ
	2. अंचल अधिकारी, कोडरमा
	3. अंचल अधिकारी, मरकच्चो
	4. अंचल अधिकारी, डोमचाँच
20-बरकड्डा	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चलकुशा
	2. अंचल अधिकारी, बरकड्डा
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर (कोडरमा)
	4. अंचल अधिकारी, ईचाक
21-बरही	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरही
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवारा
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पदमा
22-बड़कागाँव	1. अंचल अधिकारी, केरेडारी (हजारीबाग)
	2. अंचल अधिकारी, बड़कागाँव (हजारीबाग)
	3. अंचल अधिकारी, पतरातू
23-रामगढ़	1. अंचल अधिकारी, गोला
	2. अंचल अधिकारी, रामगढ़
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुलमी
24-माण्डू	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू (रामगढ़)
	3. अंचल अधिकारी, विशुनगढ़
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डाड़ी
	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया
25-हजारीबाग	1. अंचल अधिकारी, कटकमसांडी
	2. अंचल अधिकारी, सदर
	3. स्थापना उप समाहर्ता, सदर अनुमंडल, हजारीबाग
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग
	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारू
26-सिमरिया (अ०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरिया
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टंडवा
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटखोरी
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग
	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिद्धौर
	6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथलगड्डा
	7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड
27-चतरा (अ०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुन्दा
	5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कान्हाचट्टी
28-धनवार	1. अंचल अधिकारी, गावां
	2. अंचल अधिकारी, तिसरी
	3. अंचल अधिकारी, धनवार
29-बगोदर	1. अंचल अधिकारी, बिरनी
	2. अंचल अधिकारी, बगोदर
	3. अंचल अधिकारी, सरिया
30-जमुआ (अ०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुआ
	2. अंचल अधिकारी, जमुआ
	3. अंचल अधिकारी, देवरी
31-गाण्डेय	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह
	2. अंचल अधिकारी, गाण्डेय
	3. अंचल अधिकारी, बैगाबाद
32-गिरिडीह	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरटांड
	2. अंचल अधिकारी, गिरिडीह
	3. अंचल अधिकारी, पीरटांड
33-डुमरी	1. अंचल अधिकारी, डुमरी
	2. अंचल अधिकारी, नावाडीह, (बोकारो)
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)
34-गोमिया	1. अंचल अधिकारी, गोमिया

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
	2. अंचल अधिकारी, पेटरवार
	3. अंचल अधिकारी, कसमार
35-बेरमो	1. अंचल अधिकारी, जरीडीह
	2. अंचल अधिकारी, बेरमो
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेटरवार
	4. अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा
36-बोकारो	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चास
	2. उप समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, बोकारो
	3. द्वितीय उप समाहर्ता, अनुमण्डल कार्यालय, चास
37-चन्दनकियारी (अ०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दनकियारी
	2. अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी
	3. अंचल अधिकारी, चास
38-सिन्दरी	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर
	3. अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर
39-निरसा	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, निरसा
	2. अंचल अधिकारी, निरसा
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कलियासोल
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एगारकुण्ड
40-धनबाद	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद
	2. अंचल अधिकारी, धनबाद
	3. उप समाहर्ता प्रथम, अनुमण्डल कार्यालय, धनबाद
41-झरिया	1. उप समाहर्ता द्वितीय, अनुमण्डल कार्यालय, धनबाद
	2. अंचल अधिकारी, झरिया
	3. अंचल अधिकारी, बलियापुर
42-टुण्डी	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टुण्डी
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचांची
	3. अंचल अधिकारी, टुण्डी
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी टुण्डी
43-बाघमारा	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा
	2. अंचल अधिकारी, बाघमारा
	3. अंचल अधिकारी, तोपचांची
44-बहरागोड़ा	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहरागोड़ा
	2. अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा
	3. अंचल अधिकारी, चाकुलिया
	4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुड़ाबान्दा
45-घाटशिला (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़
	2. अंचल अधिकारी, घाटशिला
	3. अंचल अधिकारी, मुसाबनी
	4. अंचल अधिकारी, गुड़ाबान्दा

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
46-पोटका (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका 2. अंचल अधिकारी, पोटका 3. अंचल अधिकारी, डुमरिया 4. अंचल अधिकारी, गोलमुरी-सह-जुगसलाई
47-जुगसलाई (अ०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटमदा 2. अंचल अधिकारी, पटमदा 3. अंचल अधिकारी, बोड़ाम 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोलमुरी-सह-जुगसलाई
48-जमशेदपुर (पूर्व)	1. प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर 2. द्वितीय कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर 3. तृतीय कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर
49-जमशेदपुर (पश्चिमी)	1. विशेष पदाधिकारी, (उप समाहर्ता) जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति 2. विशेष पदाधिकारी, (उप समाहर्ता) मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोड़ाम
50-ईचागढ़	1. अंचल अधिकारी, ईचागढ़ 2. अंचल अधिकारी, चाण्डिल 3. अंचल अधिकारी, नीमडीह 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुकड़ू
51-सरायकेला (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, गम्हरिया 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया
52-चाईबासा (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, सदर, चाईबासा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, झींकपानी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, टोन्टो 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, चाईबासा 5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हाटगम्हरिया 6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूंटपानी
53-मझगाँव (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारडुंगी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझगाँव 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझारी 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तांतनगर
54-जगन्नाथपुर (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगन्नाथपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी 3. अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी
55-मनोहरपुर (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोईलकेरा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनुवां

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
	4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी
	5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आन्नदपुर
56-चक्रधरपुर (अ०ज०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चक्रधरपुर
	2. अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बंदगाँव
57-खरसाँवा (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, खूँटपानी (प० सिंहभूम)
	2. अंचल अधिकारी, सरायकेला
	3. अंचल अधिकारी, कुचाई
	4. अंचल अधिकारी, खरसावाँ
58-तमाड़ (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, तमाड़
	2. अंचल अधिकारी, अड़की
	3. अंचल अधिकारी, बुण्डू
59-तोरपा (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोरपा
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो (सिमडेगा)
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रनियां
60-खूँटी (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरहू
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्मा
61-सिल्ली	1. अंचल अधिकारी, सिल्ली
	2. अंचल अधिकारी, अनगड़ा
	3. अंचल अधिकारी, सोनाहातु
62-खिजरी (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, ओरमांझी
	2. अंचल अधिकारी, नामकुम
	3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनगड़ा
	4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नामकुम
63-राँची	1. तृतीय वरीयतम उप समाहर्ता, सदर अनुमण्डल, राँची
	2. अंचल अधिकारी, शहर, राँची
	3. चतुर्थ वरीयतम उप समाहर्ता, सदर अनुमण्डल, राँची
64-हटिया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रातू
	2. अंचल अधिकारी, अरगोड़ा
	3. अंचल अधिकारी, हेहल
	4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगड़ी
65-काँके (अ०जा०)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खलारी
	2. अंचल अधिकारी, काँके
	3. अंचल अधिकारी, बुढमू
	4. अंचल अधिकारी, बड़गाई
66-माण्डर (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, माण्डर
	2. अंचल अधिकारी, बेड़ो
	3. अंचल अधिकारी, लापुंग
	4. अंचल अधिकारी, चान्हो

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
67-सिसई (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भरनो 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई
68-गुमला (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुमला 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी 5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अलबर्ट एक्का जारी
69-बिशुनपुर (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाघरा 3. अंचल अधिकारी, सेन्हा (लोहरदगा) 4. अंचल अधिकारी, पेशरार (लोहरदगा) 5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा (लोहरदगा)
70-सिमडेगा (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट
71-कोलेबिरा (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलडेगा 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर
72-लोहरदगा (अ०ज०जा०)	1. अंचल अधिकारी, किस्को 2. अंचल अधिकारी, लोहरदगा सदर 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू 4. अंचल अधिकारी, भण्डरा 5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेशरार 6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो
73-मनिका (अ०ज०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़ 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गारू
74-लातेहार (अ०जा०)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लातेहार 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा 3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु 5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज
75-पांकी	1. अंचल अधिकारी, तरहसी 2. अंचल अधिकारी, लेस्लीगंज 3. अंचल अधिकारी, पाँकी 4. अंचल अधिकारी, मनातू
76-डालटेनगंज	1. अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर

विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
	2. अंचल अधिकारी, चैनपुर
	3. अंचल अधिकारी, भण्डरिया (गढ़वा)
	4. अंचल अधिकारी, सतबरवा
77-विश्रामपुर	1. अंचल अधिकारी, विश्रामपुर
	2. अंचल अधिकारी, मझिगांव (गढ़वा)
	3. अंचल अधिकारी, पाण्डू
	4. अंचल अधिकारी, नावाबाजार
78-छतरपुर (अ०जा०)	1. अंचल अधिकारी, टण्डवा
	2. अंचल अधिकारी, छतरपुर
	3. अंचल अधिकारी, पाटन
	4. अंचल अधिकारी, नौडिहा बाजार
79-हुसैनाबाद	1. अंचल अधिकारी, हैदरनगर
	2. अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद
	3. अंचल अधिकारी, हरिहरगंज
	4. अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज
80-गढ़वा	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनियाँ
	2. अंचल अधिकारी, गढ़वा
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका
81-भवनाथपुर	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भवनाथपुर
	2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डण्डई
	3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर उटौरी

आदेश से,

अरविन्द आनन्द,
सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION****3RD FEBRUARY, 2020/14 MAGHA, 1941 (SAKA)**

No. 429/ES-1/JKD-LA/2019 (2) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 429/JKD/2001(2) dated 23rd January, 2001, as amended from time to time, the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Government specified in column 2 of the Table below as the Assistant Electoral Registration Officer to assist the Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Jharkhand as specified in column 1 of the said Table against such officer of the Government, in performance of the functions of such Electoral Registration Officer :-

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency	Assistant Electoral Registration Officer
1	2
1-Rajmahal	1. Block Development Officer, Sahebganj
	2. Block Development Officer, Rajmahal
	3. Block Development Officer, Udhwa
	4. Circle Officer, Rajmahal
2-Borio (ST)	1. Block Development Officer, Boarijore (Godda)
	2. Block Development Officer, Taljhari
	3. Block Development Officer, Borio
	4. Block Development Officer, Mandro
3-Barhait (ST)	1. Block Development Officer, Sundarpahari (Godda)
	2. Block Development Officer, Barhait
	3. Block Development Officer, Pathna
	4. Circle Officer, Boarijore (Godda)
4-Litipara (ST)	1. Block Development Officer, Littipara
	2. Block Development Officer, Amrapara
	3. Block Development Officer, Hiranpur
	4. Block Development Officer, Gopikandar (Dumka)

5-Pakaur	1. Circle Officer, Pakur
	2. Block Development Officer, Barharwa (Sahebganj)
	3. Block Development Officer, Pakur
6-Maheshpur (ST)	1. Block Development Officer, Pakuria
	2. Circle Officer, Maheshpur
	3. Block Development Officer, Maheshpur
7-Sikaripara (ST)	1. Block Development Officer, Shikaripara
	2. Block Development Officer, Raneshwar
	3. Block Development Officer, Kathikund
8-Nala	1. Circle Officer, Fatehpur
	2. Circle Officer, Nala
	3. Circle Officer, Kundahit
9-Jamtara	1. Circle Officer, Narayanpur
	2. Circle Officer, Karmatar Vidhyasager
	3. Circle Officer, Jamtara
10-Dumka (ST)	1. Block Development Officer, Dumka
	2. Circle Officer, Dumka
	3. Block Development Officer, Masaliya
11-Jama (ST)	1. Block Development Officer, Jama
	2. Circle Officer, Jama
	3. Block Development Officer, Ramgarh
12-Jarmundi	1. Block Development Officer, Jarmundi
	2. Block Development Officer, Sarwan (Deoghar)
	3. Block Development Officer, Sonaraitthadi (Deoghar)
13-Madhupur	1. Block Development Officer, Margomunda
	2. Block Development Officer, Madhupur
	3. Block Development Officer, Karown
	4. Block Development Officer, Devipur
14-Sarath	1. Block Development Officer, Sarath
	2. Block Development Officer, Palojori
15-Deoghar (SC)	1. Block Development Officer, Mohanpur
	2. Circle Officer, Deoghar
	3. Block Development Officer, Deoghar

16-Poreyahat	1. Block Development Officer, Poreyahat
	2. Circle Officer, Godda
	3. Block Development Officer, Saraiyahat
17-Godda	1. Block Development Officer, Basantra
	2. Block Development Officer, Pathergama
	3. Block Development Officer, Godda
18-Mahagama	1. Block Development Officer, Meherma
	2. Block Development Officer, Thakurgangti
	3. Block Development Officer, Mahagama
19-Kodarma	1. Circle Officer, Satgawan
	2. Circle Officer, Koderma
	3. Circle Officer, Markacho
	4. Circle Officer, Domchanch
20-Barkatha	1. Block Development Officer, Chalkusha
	2. Circle Officer, Barkatha
	3. Block Development Officer, Jainagar (Koderma)
	4. Circle Officer, Ichak
21-Barhi	1. Block Development Officer, Chauparan
	2. Block Development Officer, Barhi
	3. Block Development Officer, Chandwara
	4. Block Development Officer, Padma
22-Barkagaon	1. Circle Officer, Keredari (Hazaribagh)
	2. Circle Officer, Barkagaon (Hazaribagh)
	3. Circle Officer, Patrattu
23-Ramgarh	1. Circle Officer, Gola
	2. Circle Officer, Ramgarh
	3. Block Development Officer, Dulmi
24-Mandu	1. Block Development Officer, Churchu
	2. Block Development Officer, Mandu (Ramgarh)
	3. Circle Officer, Bishnugarh
	4. Block Development Officer, Dadi
	5. Block Development Officer, Tatijhariya

25-Hazaribagh	1. Circle Officer, Katakamsandi
	2. Circle Officer, Sadar
	3. Establishment Deputy Collector, Sadar Sub Division, Hazaribagh
	4. Block Development Officer, Katakamdag
	5. Block Development Officer, Daru
26-Simaria (SC)	1. Block Development Officer, Simaria
	2. Block Development Officer, Tandwa
	3. Block Development Officer, Itkhor
	4. Block Development Officer, Lawalong
	5. Block Development Officer, Gidhaur
	6. Block Development Officer, Pathalgadda
	7. Block Development Officer, Mayurhand
27-Chatra (SC)	1. Block Development Officer, Chatra
	2. Block Development Officer, Hanterganj
	3. Block Development Officer, Pratappur
	4. Block Development Officer, Kunda
	5. Block Development Officer, Kanhachatti
28-Dhanwar	1. Circle Officer, Gawan
	2. Circle Officer, Tisri
	3. Circle Officer, Dhanwar
29-Bagodar	1. Circle Officer, Birni
	2. Circle Officer, Bagodar
	3. Circle Officer, Sariya
30-Jamua (SC)	1. Block Development Officer, Jamua
	2. Circle Officer, Jamua
	3. Circle Officer, Deori
31-Gandey	1. Block Development Officer, Giridih
	2. Circle Officer, Gandey
	3. Circle Officer, Bengabad
32-Giridih	1. Block Development Officer, Pirtand
	2. Circle Officer, Giridih
	3. Circle Officer, Pirtand

33-Dumri	1. Circle Officer, Dumri
	2. Circle Officer, Nawadih (Bokaro)
	3. Block Development Officer, Chandrapura (Bokaro)
34-Gomia	1. Circle Officer, Gomia
	2. Circle Officer, Petarwar
	3. Circle Officer, Kasmar
35-Bermo	1. Circle Officer, Jaridih
	2. Circle Officer, Bermo
	3. Block Development Officer, Petarwar
	4. Circle Officer, Chandrapura
36-Bokaro	1. Block Development Officer, Chas
	2. Dy. Collector, I/C General Section District, Collectorate, Bokaro
	3. Deputy Collector (Second), Sub Divisional Office, Chas
37-Chandankiyari (SC)	1. Block Development Officer, Chandankiyari
	2. Circle Officer, Chandankiyari
	3. Circle Officer, Chas
38-Sindri	1. Block Development Officer, Baliapur
	2. Block Development Officer, Govindpur
	3. Circle Officer, Govindpur
39-Nirsa	1. Block Development Officer, Nirsa
	2. Circle Officer, Nirsa
	3. Block Development Officer, Kaliyasol
	4. Block Development Officer, Egarkund
40-Dhanbad	1. Block Development Officer, Dhanbad
	2. Circle Officer, Dhanbad
	3. Deputy Collector (First) Sub Divisional Office, Dhanbad
41-Jharia	1. Deputy Collector (Second) Sub Divisional Office, Dhanbad
	2. Circle Officer, Jharia
	3. Circle Officer, Baliapur
42-Tundi	1. Block Development Officer, Tundi
	2. Block Development Officer, Topchachi
	3. Circle Officer, Tundi
	4. Block Development Officer, East Tundi

43-Baghmara	1. Block Development Officer, Baghmara
	2. Circle Officer, Baghmara
	3. Circle Officer, Topchachi
44-Bahragora	1. Block Development Officer, Baharagora
	2. Circle Officer, Baharagora
	3. Circle Officer, Chakulia
	4. Block Development Officer, Gudabanda
45-Ghatsila (ST)	1. Circle Officer, Dhalbhumgarh
	2. Circle Officer, Ghatsila
	3. Circle Officer, Musabani
	4. Circle Officer, Gudabanda
46-Potka (ST)	1. Block Development Officer, Potka
	2. Circle Officer, Potka
	3. Circle Officer, Dumaria
	4. Circle Officer, Golmuri-cum-Jugsalai
47-Jugsalai (SC)	1. Block Development Officer, Patamda
	2. Circle Officer, Patamda
	3. Circle Officer, Boram
	4. Block Development Officer, Golmuri-cum-Jugsalai
48-Jamshedpur East	1. Executive Magistrate (First), Dhalbhum, Jamshedpur
	2. Executive Magistrate (Second), Dhalbhum, Jamshedpur
	3. Executive Magistrate (Third), Dhalbhum, Jamshedpur
49-Jamshedpur West	1. Special Officer, (Dy. Collector) Jamshedpur Notified Area Committee
	2. Special Officer, (Dy. Collector) Mango Notified Area Committee
	3. Block Development Officer, Boram
50-Ichagarh	1. Circle Officer, Ichagarh
	2. Circle Officer, Chandil
	3. Circle Officer, Neemdihi
	4. Block Development Officer, Kukru
51-Seraikella (ST)	1. Circle Officer, Gamaharia
	2. Block Development Officer, Seraikella
	3. Block Development Officer, Rajnagar
	4. Block Development Officer, Gamharia

52-Chaibasa (ST)	1. Circle Officer, Sadar Chaibasa
	2. Block Development Officer, Jhinkpani
	3. Block Development Officer, Tonto
	4. Block Development Officer, Sadar Chaibasa
	5. Block Development Officer, Hatgamaharia
	6. Block Development Officer, Khuntpani
53-Majhgaon (ST)	1. Block Development Officer, Kumardungi
	2. Block Development Officer, Majhgaon
	3. Block Development Officer, Manjhari
	4. Block Development Officer, Tantnagar
54-Jaganathpur (ST)	1. Block Development Officer, Jagannathpur
	2. Block Development Officer, Noamundi
	3. Circle Officer, Noamundi
55-Manoharpur (ST)	1. Block Development Officer, Goilkera
	2. Block Development Officer, Manoharpur
	3. Block Development Officer, Sonua
	4. Block Development Officer, Gudri
	5. Block Development Officer, Annadpur
56-Chakradharpur (ST)	1. Block Development Officer, Chakradharpur
	2. Circle Officer, Chakradharpur
	3. Block Development Officer, Bandgaon
57-Kharsawan (ST)	1. Circle Officer, Khuntpani (West Singhbhum)
	2. Circle Officer, Seraikella
	3. Circle Officer, Kuchai
	4. Circle Officer, Kharsawan
58-Tamar (ST)	1. Circle Officer, Tamar
	2. Circle Officer, Arki
	3. Circle Officer, Bundu
59-Torpa (ST)	1. Block Development Officer, Torpa
	2. Block Development Officer, Bano (Simdega)
	3. Block Development Officer, Rania
60-Khunti (ST)	1. Block Development Officer, Khunti
	2. Block Development Officer, Murhu
	3. Block Development Officer, Karra

61-Silli	1. Circle Officer, Silli
	2. Circle Officer, Angara
	3. Circle Officer, Sonahatu
62-Khijri (ST)	1. Circle Officer, Ormanjhi
	2. Circle Officer, Namkum
	3. Block Development Officer, Angara
	4. Block Development Officer, Namkum
63-Ranchi	1. Dy. Collector (Third) Sub Divisional Office, Sadar, Ranchi
	2. Circle Officer, Town, Ranchi
	3. Dy. Collector (Fourth) Sub Divisional Office, Sadar, Ranchi
64-Hatia	1. Block Development Officer, Ratu
	2. Circle Officer, Argora
	3. Circle Officer, Hehal
	4. Block Development Officer, Nagri
65-Kanke (SC)	1. Block Development Officer, Khalari
	2. Circle Officer, Kanke
	3. Circle Officer, Burmu
	4. Circle Officer, Badgai
66-Mandar (ST)	1. Circle Officer, Mander
	2. Circle Officer, Bero
	3. Circle Officer, Lapung
	4. Circle Officer, Chanho
67-Sisai (ST)	1. Block Development Officer, Bharno
	2. Block Development Officer, Kamdara
	3. Block Development Officer, Basia
	4. Block Development Officer, Sisai
68-Gumla (ST)	1. Block Development Officer, Gumla
	2. Block Development Officer, Raidih
	3. Block Development Officer, Chainpur
	4. Block Development Officer, Dumri
	5. Block Development Officer, Albert Ekka Jari

69-Bishunpur (ST)	1. Block Development Officer, Bishunpur
	2. Block Development Officer, Ghaghra
	3. Circle Officer, Senha (Lohardaga)
	4. Circle Officer, Pesrar (Lohardaga)
	5. Block Development Officer, Bhandra (Lohardaga)
70-Simdega (ST)	1. Block Development Officer, Simdega
	2. Block Development Officer, Kurdeg
	3. Block Development Officer, Palkot
71-Kolebira (ST)	1. Block Development Officer, Kolebira
	2. Block Development Officer, Jaldega
	3. Block Development Officer, Thethaitangar
72-Lohardaga (ST)	1. Circle Officer, Kisko
	2. Circle Officer, Lohardaga Sadar
	3. Block Development Officer, Kudu
	4. Circle Officer, Bhandra
	5. Block Development Officer, Pesrar
	6. Block Development Officer, Kairo
73-Manika (ST)	1. Block Development Officer, Manika
	2. Block Development Officer, Mahuadanr
	3. Block Development Officer, Barwadih
	4. Block Development Officer, Garu
74-Latehar (SC)	1. Block Development Officer, Latehar
	2. Block Development Officer, Chandwa
	3. Block Development Officer, Balumath
	4. Block Development Officer, Bariyatu
	5. Block Development Officer, Herhanj
75-Panki	1. Circle Officer, Tarhasi
	2. Circle Officer, Lesliganj
	3. Circle Officer, Panki
	4. Circle Officer, Manatu
76-Daltonganj	1. Circle Officer, Sadar, Medininagar
	2. Circle Officer, Chainpur
	3. Circle Officer, Bandariya (Garhwa)
	4. Circle Officer, Satbarwa

77-Bishrampur	1. Circle Officer, Bishrampur
	2. Circle Officer, Majhiaon (Garhwa)
	3. Circle Officer, Pandu
	4. Circle Officer, Navabazar
78-Chhatarpur (SC)	1. Circle Officer, Tandwa
	2. Circle Officer, Chhatarpur
	3. Circle Officer, Patan
	4. Circle Officer, Noudihabazar
79-Hussainabad	1. Circle Officer, Haidarnagar
	2. Circle Officer, Hussainabad
	3. Circle Officer, Hariharganj
	4. Circle Officer, Mohammadganj
80-Garhwa	1. Block Development Officer, Chiniya
	2. Circle Officer, Garhwa
	3. Block Development Officer, Ranka
81-Bhawanathpur	1. Block Development Officer, Bhawnathpur
	2. Block Development Officer, Dandai
	3. Block Development Officer, Nagar Untari

By Order,

ARVIND ANAND,
SECRETARY
